



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2008/फाल्गुन 14, 1929

No. 292]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2008/PHALGUNA 14, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2008

का.आ. 429 (अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में सं. का.आ. 237(अ) दिनांक 5 फरवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 6/2008-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 5 फरवरी, 2008 में :-

सारणी की क्रम सं. 8 के कालम (4) में ब्रास स्क्रेप की टैरिफ कीमत (सभी श्रेणियों) के लिए "44249" के स्थान पर "4249" पढ़ी जाए।

[फा. सं. 467/23/2007-सीमा शुल्क-V]

असीम कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी.—यह अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 5 फरवरी, 2008 की अधिसूचना सं. 6/2008-सीमा शुल्क (गै.टै.) [का.आ. 237(अ) दिनांक 5 फरवरी, 2008] द्वारा प्रकाशित की गई है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th March, 2008

S.O. 429 (E).—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2008-Customs (N.T.), dated the 5th February, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide No. S.O. 237(E), dated the 5th February, 2008 :—

In column (4), at S. No. 8 of the TABLE, the Tariff value of Brass scrap (all grades) to be read as "4249" in place of "44249".

[F. No. 467/23/2007-Cus. V]

ASEEM KUMAR, Under Secy.

Note :—The Notification has been published in the Gazette of India, Extraordinary vide Notification No. 6/2008-Customs (N.T.), dated the 5th February, 2008 [S.O. 237(E), dated the 5th February, 2008].